

## कोलकाता में नकली नोटों का जखीरा! पुलिस ने 1.50 लाख के साथ एक शख्स को दबोचा



पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में **नकली नोटों** का जखीरा मिला है. कोलकाता पुलिस की एसटीएफ ने रुपये के साथ डेढ़ लाख रुपये के नकली नोट के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार व्यक्ति का नाम रकीमुल शेख है. उसका घर **मालदा** के कालियाचक में है. आरोपी के पास से 500 रुपये के 300 नकली नोट बरामद किए गए. जांचकर्ताओं के मुताबिक, वह नकली नोट कारोबार के मुख्य आरोपियों में से एक है.

शनिवार को गुप्त सूत्रों से सूचना मिलने के बाद कोलकाता पुलिस की एसटीएफ ने तापसिया इलाके में छापेमारी की. वहां, रकीमुल को नकली नोटों के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया. बताया गया है कि रकीमुल को उस दिन शाम करीब 4 बजे गिरफ्तार किया गया था.

पुलिस ने आरोपी को नकली नोटों के साथ किया गिरफ्तार पुलिस सूत्रों के मुताबिक, यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी रकीमुल को इसी आरोप में गिरफ्तार किया गया है. यहां तक कि उनके खिलाफ जाली नोटों के लेनदेन के आरोप साबित हुए और उन्हें सजा सुनाई गई थी. लेकिन वह जेल से बाहर आ गया और फिर से नकली नोटों का कारोबार करने लगा. जांचकर्ताओं को शक है कि इसमें कोई बड़ा गिरोह शामिल है. पुलिस गिरफ्तार व्यक्ति से उससे संबंधित जानकारी हासिल करने के लिए पूछताछ कर रही है.

पुलिस ने डेढ़ लाख रुपये के नकली नोट किए जब््त सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने तापसिया इलाके में चलाए गए ऑपरेशन में करीब डेढ़ लाख रुपये के नकली नोट बरामद किए हैं. इतनी बड़ी मात्रा में नकली नोट पकड़े जाने से शहर में हड़कंप मच गया. आरोपी रकीमुल शेख नकली नोटों की तस्करी का प्रयास कर रहा था. उसके पास से भारी मात्रा में नकली नोट बरामद हुए हैं. पुलिस की उस पर काफी देर से नजर थी.

हाल में नकली नोटों के साथ दो लोगों की हुई थी गिरफ्तारी बता दें कि राज्य में नकली नोटों का कारोबार बढ़ता ही जा रहा है. पुलिस ने 28 दिसंबर को कैनिंग के पास से भारी मात्रा में नकली नोट बरामद किए थे. घटना दक्षिण 24 परगना के कैनिंग थाना क्षेत्र के तलड़ी बस स्टैंड के पास की थी. पुलिस ने गुप्त सूत्रों से सूचना मिलने पर नकली नोटों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया था. ज्ञात हुआ है कि आरोपी बाजार में नकली नोट बेचने का प्रयास कर रहे थे. खास सूत्र से सूचना मिलने के बाद कैनिंग थाना पुलिस ने कार्रवाई की. घटना में नकली नोटों के साथ रंगे हाथ पकड़े गए थे. गिरफ्तार लोगों के घर कैनिंग के बयारसिंह और शिवनगर इलाके में हैं.

Source: <https://www.tv9hindi.com/state/west-bengal/west-bengal-kolkata-news-hoard-of-fake-notes-in-kolkata-police-arrested-a-person-with-1-50-lakh-au116-1651000.html>